

KENDRIYA VIDYALAYA PICKET SECUNDERBAD – 500 009

CLASS XI ADMISSION NOTICE 2023-24

SCIENCE STREAM WITH BIOLOGY ONLY

1. For class XI STUDENT Admissions , Registration forms(for Non KV) /Option form (KV & Non KV) may be downloaded from Vidyalaya Website (<https://picket.kvs.ac.in>)
2. Fill all columns of the Registration/Option form whichever is applicable to you (As per your choice) along with online marks memo of Class X.
3. Students must submit both Option form and Registration form along with class X online Marks memo downloaded by you.
4. Students must attach Caste Certificate (if applicable).
5. Parent service certificate.
6. Address proof
7. Aadhar Card in the name of the student
 - SC/ST/OBC Certificate in the name of the student(if applicable)
 - Sports Certificate(if applicable)
 - NCC (if applicable)
 - Scouts and Guides(if applicable)
8. Duly filled in Application forms must be submitted in the drop box kept in front of the Security Guard room at the entrance gate of the Vidyalaya(Timings : 10:00 AM to 12:30 PM).
9. Incomplete application forms will be summarily rejected.
10. Last date for submission of Application forms is 05.06.2023 (Monday)

Sd/-

PRINCIPAL KV
PICKET

KENDRIYA VIDYALAYA PICKET SECUNDERBAD – 500 009

APPLICATION FORM FOR ADMISSION TO CLASS XI (2022-23) **(OPTION FORM)**

1. Name of the pupil (in block letters) : _____
2. School last attended with Admission no : _____
3. Whether belonging to SC/ST/OBC : _____
4. Name, Designation & address of Father - Telephone no : _____

5. Mother's Name : _____
6. Board : _____
7. Marks/Grade obtained in qualifying exam : _____

ENGLISH	HINDI/SKT	MATHS(ADV/BASIC)	SCIENCE	SOCIAL	TOTAL PERCENTAGE
---------	-----------	------------------	---------	--------	------------------

8. Whether participated in SGFI or KVS National Meet : (YES/NO)
9. Whether Scout/Guide : (YES/NO)
10. Whether NCC A Certificate holder/has attended Republic Day parade : (YES/NO)
11. Name of the stream applied for mention subjects
opted Stream : _____
Subjects offered :
1. _____ 2. _____ 3. _____
4. _____ 5. _____

Certified that the entire particulars filled in the form are correct. I abide for cancellation of seat, if any false information is furnished. I do not seek change of subject in future.

Signature of the student

Signature of the Parent

Date

STREAMS AND SUBJECTS OFFERED:

The following groups and subjects combinations are prescribed by KVS and are available in this Vidyalaya for classes XI and XII.

a) SCIENCE STREAM

I Maths, Physics Chemistry, Biology and English Core.

II Biology, Physics, Chemistry, Hindi with English Core.

ADMIT/DO NOT ADMIT

For Office use

Teacher In charge

PRINCIPAL



केन्द्रीय विद्यालय पिकेट, सिकन्दराबाद - 500 009.
KENDRIYA VIDYALAYA PICKET, SECUNDERABAD - 500 009.
वर्ष / Year 20 -20

कार्यालय प्रयोग के लिए / FOR OFFICE USE ONLY

क्रम सं. / S.No.

441

REG. NO.			Gen/SC/ST/DA BPL/OBC/EWS	SGC
Dept.	Cat.	No. of Trs.		

अभिभावक के द्वारा भरे जाने हेतु
To be filled by the parent

Photograph
of the child
(Passport size)

पंजीकरण के लिए कक्षा / Registration for class.....

1. विद्यार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में)

Name of child in full (in Capital letters).....
(As in DOB Certificate)

लिंग / Sex पुरुष / Male स्त्री / Female तृतीय लिंग / Third Gender

2. जन्म तिथि (अंको में) Date of Birth (in figure) दिन / Day मास / Month वर्ष / Year

शब्दों में / In words.....
31.3.20 तक आयु / Age as on 31.3.20 वर्ष / Years मास / Months दिन / Days

3. बच्चे का रक्त समूह (Rh फैक्टर सहित)
Blood Group of the child (with Rh factor)

4. बच्चे की संबन्धित श्रेणी / The category to which child belong

सामान्य श्रेणी अनु जाति अनु जनजाति ओ.बी.सी आर्थिक रूप से बी पी एल अन्य रूप से इकलौती कन्या केविस
Gen. Cat SC ST OBC EWS BPL Diff. Abled SG Child KVS

यदि बच्चा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओ. बी. सी. से / आर्थिक रूप से कमजोर / बी पी एल / विकलांग / इकलौती कन्या यदि हाँ तो प्रमाण - पत्र संलग्न करें।

If the child belongs to (SC/ST/OBC/EWS/BPL/Disabled/S.G.C.) Category, then please attach relevant certificate.

5. माता-पिता का विवरण / Details of Mother/ Father	माता / Mother	पिता / Father
(i) नाम (स्पष्ट शब्दों में) / Name (in Capital letters)		
(ii) राष्ट्रियता / Nationality		
(iii) व्यवसाय / Occupation		
(iv) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष Name of Office and full address and telephone number		
(v) पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण सहित) Full present residential address (with Address Proof)		
Mobile numbers		
Email ID :		

(vi) विद्यालय से आवास की दूरी (कि.मी में)। दूरी के लिए माता-पिता/अभिभावक का संपथ-पत्र मान्य है। आवास प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है। Distance from KV(in km) Undertaking from parents is acceptable for distance. Proof of Residence is compulsory.	माता / Mother	पिता / Father
(vii) मूल वेतन / Basic Pay		
(viii) 31-3-20 तक पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या No.of transfers during last 7 years as on 31-3-20		
(ix) माता- पिता की श्रेणी केन्द्रीय सरकार / केन्द्रीय सरकार के स्वायत्ता संस्थान/ राज्य सरकार/राज्य सरकार के स्वायत्ता संस्थान/अन्य Category of the Parent belongs to for Central Govt (write 1) for Central Autonomous bodies/PSUs (write 2) for State Govt (write 3) for State Govt Autonomous /PSUs (write 4) for all Others(including Private employees) (write 5)		
(x) कर्मचारी कोड यदि है तो/ Employee Code (if any)		

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी में सत्य हैं।
I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर
Signature of Mother / Father / Guardian

दिनांक/ Date:.....

पूरा नाम/ Full Name.....

सेवा प्रमाण-पत्र /SERVICE CERTIFICATE

(केन्द्रीय सरकार / Central Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा
बल/एन.एस.जी./एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ./केन्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था/अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो
पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार से वित्त-पोषित हैं, के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय हैं /
पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय हैं ।

Certified that Shri/Smt.....

is working as Regular Employee in the office / Ministry of He/She is a Regular

Employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/SPG/CISF/Central Govt./Autonomous Body/Public Sector

Undertaking fully financed/partially financed by Central Govt. and his/her services are non transferable / transferable

anywhere in India.

Round Office Seal

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

Signature of the Head of the Office

With Name, Designation and Office stamp

स्थान / Place _____

दिनांक/ Date _____

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____

Complete address and Telephone No. of Office _____

सेवा प्रमाण-पत्र / SERVICE CERTIFICATE

(राज्य सरकार / State Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती _____
कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय हैं / पूर्ण राज्य में
कहीं भी स्थानांतरणीय हैं।

Certified that Shri/Smt _____ is **Permanently Working** in
the office/ Ministry of _____ and his/her services are non transferable
/ transferable anywhere in State.

Round Office Seal
स्थान / Place _____
दिनांक/ Date _____
कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या
Complete address and Telephone No. of Office _____

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of the Head of the Office
With Name, Designation and Office stamp

स्थानांतरण संख्या प्रमाण - पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS

मैं _____ (नाम) _____ (रैंक/पदनाम)
_____ (कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल
(31.3. 2016 तक) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे _____ (अंको व शब्द में)
स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

I, _____ (Name) _____ (rank/ designation)
of _____ (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to
31.03.20) I have been transferred _____ times (in figures & in words) from one station to
another, the details of which are given as under :-

क्र.सं. S.No.	कार्यालय/ यूनिट Office/Unit	स्थान Place	रैंक/ पदनाम Rank / Designation	दिनांक/ Date		ठहरने की अवधि Period of stay	आदेश संख्या Order No & Date
				DD/ MM/ YY से/ From	DD/ MM/ YY तक/ To		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

मैं जानता/जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अयोग्य हो जाएगा।
I know that, if the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya.

माता / पिता के हस्ताक्षर
SIGNATURE OF PARENT
Name: _____

Date: _____

प्रतिहस्ताक्षर / Countersignature

मैं _____ (नाम) _____ (रैंक / पदनाम)

_____ (कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय - आलेखों से जाँच लिया गया है व सही पाया गया है ।

I, _____ (name) _____ (rank/designation)
of _____ (unit/department) hereby certify that the particulars given in above
have been authenticated by the records held in the office and found correct.

Round Office Seal

स्थान / Place _____

दिनांक/ Date _____

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____

Complete address and Telephone No. of Office _____

टिप्पणि / Note-

एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छह मास होनी चाहिए

Minimum period of posting/stay at a place should be six months.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of the Head of the Office
(With Name, Designation and Office stamp)

सेवा - कालीन मृत्यु प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE

(केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt Employees)

प्रमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमारी _____ स्वर्गीय

श्री/ श्रीमती _____ के पुत्र /पुत्री हैं जो _____

(कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत थे /थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में दिनांक _____ को हो गया था ।

Certified that Master/Miss _____ is the son/daughter of

Late Sh./Smt. _____ who was regular employee of _____

(Office/Department) and he/she died in harness (while in service) on _____ (date).

Round Office Seal

स्थान / Place _____

दिनांक/ Date _____

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____

Complete address and Telephone No. of Office _____

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of the Head of the Office
With Name, Designation and Office stamp